



Shiksha Mandal, Wardha's

G. S. College of Commerce & Economics, Nagpur

An Autonomous Institution

(Affiliated to Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University)

First Semester Bachelor of Commerce Examination (CBCS)

HINDI

(BCL 1.H)

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 80

Note: All Questions are compulsory.

प्रश्न १. निम्न प्रश्नों के उत्तर १५० - २०० शब्दों में लिखिए:

अ) 'गपशप' निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

08

अथवा

'शरणागत' कहानी में रज्जब कसाई की किन समस्याओं व परेशानियों को वर्णित किया है?

ब) 'चीफ की दावत' कहानी में लेखक ने आधुनिक सभ्यता पर किस तरह व्यंग्य किया है?

08

अथवा

सरदार पूर्ण सिंह ने सच्चे वीर का विवेचन किस प्रकार किया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न २. अ) निम्न लिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर ७५-१०० शब्दों में लिखिए:

08

१. 'कफन' के पैसों का घीसू और माधव ने क्या किया?

२. 'गपशप' पाठ के आधार पर लेखक ने अपने मित्रों के विषय में क्या कहा है?

३. शामनाथ की माँ ने फुलकारी बनाना क्यों स्वीकार किया?

४. 'शरणागत' कहानी के आधार पर ठाकुर का संक्षिप्त परिचय लिखिए।

ब) निम्न लिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के दो से तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए:

04

१. जापान के ओशियों की वीरता को लेखक ने किस तरह चित्रित किया है?

२. वास्तविक हिंदुस्तान किन लोगों के बीच बसा है?

३. घीसू और माधव कराहती बुधिया के पास क्यों नहीं गए?

४. श्यामनाथ की खीझ प्रसन्नता व गर्व में किस तरह बदल गई?

क) निम्न लिखित में से किन्हीं चार लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए।

04

१. अंधों में काना राजा

२. एक अनार सौ बीमार

३. मुँह में राम बगल में छुरी
४. हाथ कंगन को आरसी क्या
५. उलटाचोर कोतवाल को डाँटे
६. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गयी खेत

प्रश्न ३. निम्न लिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर १५०-२०० शब्दों में लिखिए: 08

अ) पाठ्यपुस्तक अंतर्गत पठित कवि बिहारी के भक्ति परक दोहों की व्याख्या कीजिए।

अथवा

'वर दे विणा वादिनी वर दे' कविता का सारांश लिखिए।

ब) निम्न लिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर ७५-१०० शब्दों में लिखिए। 08

१. कवि सूरदास ने कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ाओं को किस तरह चित्रित किया है?
२. जल और कुंभ के माध्यम से कबीर ने क्या कहा है?
३. महान पुरुषों के कार्य छोटे लोगों से पूर्ण नहीं होते कवी बिहारी ऐसा क्यों कहते हैं?
४. कवी ने भारत वासियों से क्या आह्वान किया है?

प्रश्न ४. निम्न प्रश्न का उत्तर १५०-२०० शब्दों में लिखिए: 08

अ) गांधीजी ने किस वस्तु की चोरी की और उसका प्रायश्चित्त किस प्रकार किया?

अथवा

गांधीजी ने विलायत में खुराक संबंधी क्या-क्या उपाय किए?

ब) निम्न लिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर ७५-१०० शब्दों में लिखिए: 08

१. कस्तूरबा बाई का परिचय लिखिए।
२. गांधीजी के मन में रामनाम के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई?
३. सर्वधर्म समान है, इस बात की नींव गांधी जी पर कैसे पड़ी?
४. विलायत जाते समय जहाज पर गांधीजी का अनुभव बताइए?

प्रश्न ५. निम्न प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए: 08

अ) पत्रलेखन से क्या समझते हैं? अच्छे पत्र की विशेषताएं लिखिए।

अथवा

व्यावसायिक पत्र से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक पत्र का सामान्य प्रारूप उदाहरण स्वरूप स्पष्ट कीजिए।

ब) निम्न लिखित में से किसी एक विषय पर २५० -३०० शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए: 08

१. वैज्ञानिक प्रगति और भारत
२. समाज में शिक्षा का महत्व
३. बढ़ती हुई मँहगाई की समस्या
४. आतंकवाद विश्व के सामने एक चुनौती
